



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

4 अग्रहायण 1935 (श0)
(सं0 पटना 869) पटना, सोमवार, 25 नवम्बर 2013

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

अधिसूचना

13 नवम्बर 2013

सं0 अ0सं0क0-1-17/2011-1655—बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 53वीं से 55वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर चयनित एवं नियुक्ति के उपरांत बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान, पटना में प्रशिक्षण के उपरांत निम्नलिखित जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारियों को वेतनमान रु0 9300-34800-ग्रेड पे-5400 में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अनुमान्य भत्तों के साथ उनके नाम के सामने स्तम्भ-5 में अंकित जिलों में उनके नाम के सामने स्तम्भ-4 में अंकित तिथि के प्रभाव से अगले आदेश तक जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

क्र0 सं0	पदाधिकारी का नाम/ मेधा क्रमांक	गृह जिला	विभाग में योगदान की तिथि	पदस्थापन का जिला
1	2	3	4	5
1	सुश्री रश्मि/ 106	पश्चिम चम्पारण (बेतिया)	17.10.2013	मधुबनी
2	श्री जटा शंकर पान्डेय/ 156	जौनपुर (उत्तर प्रदेश)	17.10.2013	सहरसा
3	श्री प्रकाश नारायण सिंह/ 150	चंदौली (उत्तर प्रदेश)	24.10.2013	बक्सर

2. उपरोक्त पदाधिकारियों के द्वारा स्तम्भ-4 में अंकित तिथि के पूर्वाह्न में विभाग में योगदान के पश्चात् उन्हें उसी तिथि के अपराह्न में प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान, वाल्मी परिसर, फुलवारी शरीफ, पटना में भेजा गया था।

3. उपरोक्त तीनों पदाधिकारियों को बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान, वाल्मी परिसर, फुलवारीशरीफ, पटना के पत्रांक 1353 दिनांक 25.10.2013 द्वारा दिनांक 26.10.2013 के अपराह्न से विभाग के लिए विरमित किये जाने एवं उनके द्वारा विभाग में दिनांक 28.10.2013 के पूर्वाह्न में योगदान करने के पश्चात् पुनः विभागीय आदेश ज्ञापांक-1575 दिनांक 29.10.2013 द्वारा विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों में प्रशिक्षण के उपरांत अपने पदस्थापन के जिला में जिला पदाधिकारी के अधीन रहकर कार्य करने हेतु आदेश दिया जाता है ।

4. उपरोक्त पदाधिकारीगण जिला में योगदान के पश्चात् दो माह का विहित व्यवहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के कार्यों का निष्पदन करेंगे ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

आमिर सुबहानी,

सरकार के प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 869-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>